

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 29.09.2021

थाना निगोही पुलिस ने किया हत्या का खुलासा,

बलात्कार का प्रयास करने में विफल होने पर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 27.09.2021 को राजवती उर्फ राजबेटी अपने खेतों में घास काटने के लिये गयी थी वही गांव का ही एक युवक नेवाराम पुत्र श्री गन्ना भी अपने खेतों में काम कर रहा था। महिला को अकेला देखकर युवक नेवाराम बलात्कार करने के उद्देश्य से महिला के पास गया और महिला को पकड़ लिया जब महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो युवक ने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 444/21 धारा 376,511,302 आईपीसी बनाम नेवाराम पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्री. एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये।

इसी क्रम में थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 29.09.21 की सुबह 09.05 बजे अभियुक्त नेवाराम को कैमुआ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 60 मीटर दूरी पर धान के खेत से मृतका का कपडा जिसमें घास बंधी थी को बरामद किया गया जिसको अभियुक्त ने फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना पर विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता :-

1.नेवाराम पुत्र श्री गन्ना नि0 ग्राम चक्रमली थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 दुपट्टा जिसमें चारा बँधा हुआ था।

पंजीकृत अभियोग:-

1.मु0अ0सं0 444//21 धारा 376,511,302 आईपीसी बनाम नेवाराम थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 143/90 धारा 376 भादवि थाना निगोही शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.श्री दिलीप कुमार सिंह कार्यवाहक थाना निगोही शाहजहाँपुर।

2.का0 संकित यादव

3.का0 वसीम सैफी

4.का0 चालक रविन्द्र कुमार